

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग - रणनीति

रणनीति की आवश्यकता क्यों?

- मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एम.पी.पी.एस.सी.), इंदौर द्वारा आयोजित परीक्षा में सफलता सुनिश्चित करने के लिये उसकी प्रकृति के अनुरूप उचित एवं गतिशील रणनीति बनाने की आवश्यकता है।
- यह वह प्रथम प्रक्रिया है जिससे आपकी आधी सफलता प्रारम्भ में ही सुनिश्चित हो जाती है।
- ध्यातव्य है कि मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा सामान्यतः तीन चरणों (प्रारंभिक, मुख्य एवं साक्षात्कार) में आयोजित की जाती है, जिसमें प्रत्येक अगले चरण में पहुँचने के लिये उससे पूर्व के चरण में सफल होना आवश्यक है।
- इन तीनों चरणों की परीक्षा की प्रकृति एक दूसरे से भिन्न होती है। अतः प्रत्येक चरण में सफलता सुनिश्चित करने के लिये अलग-अलग रणनीति बनाने की आवश्यकता है।

प्रारम्भिक परीक्षा की रणनीति:

- वगित 5 से 10 वर्षों में प्रारम्भिक परीक्षा में पूछे गये प्रश्नों का सूक्ष्म अवलोकन करें और उन बटुओं तथा शीर्षकों पर ज्यादा ध्यान दें जिससे वगित वर्षों में प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति ज्यादा रही है।
- प्रथम प्रश्नपत्र 'सामान्य अध्ययन' के पाठ्यक्रम में सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण, राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय महत्त्व की वर्तमान घटनाएँ, भारत का इतिहास एवं स्वतंत्र भारत, भारत का भूगोल एवं विश्व की सामान्य भौगोलिक जानकारी, भारतीय राजनीति एवं अर्थव्यवस्था, खेलकूद, मध्य प्रदेश का भूगोल, इतिहास एवं संस्कृति, मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा मध्यप्रदेश की जनजातियाँ सम्मिलित हैं। इसकी विस्तृत जानकारी 'पाठ्यक्रम' शीर्षक में दी गई है।
- इस परीक्षा के पाठ्यक्रम और वगित वर्षों में पूछे गये प्रश्नों की प्रकृति का सूक्ष्म अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि इसके कुछ खण्डों की गहरी अवधारणात्मक एवं तथ्यात्मक जानकारी अनिवार्य है। जैसे- 'गदर पार्टी' की स्थापना किसने की थी? कंप्यूटर के किस भाग में समृतियों का संकलन होता है? मध्य प्रदेश का सबसे ऊँचा जलप्रपात कौन-सा है? इत्यादि।
- इन प्रश्नों को याद रखने और हल करने का सबसे आसान तरीका है कि विषय की तथ्यात्मक जानकारी से सम्बंधित संक्षिप्त नोट्स बना लिये जाएँ और उसका नियमित अध्ययन किया जाए जैसे- एक प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान में 'संघवाद' की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो आप को भारतीय संविधान में विभिन्न देशों से ली गई प्रमुख अवधारणाओं की एक लिस्ट तैयार कर लेनी चाहिये।
- इस परीक्षा में पूछे जाने वाले विभिन्न अधिनियमों तथा संस्थाओं इत्यादि से सम्बंधित प्रश्नों के लिये भारत सरकार के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित 'भारत' (इण्डिया इयर बुक) का बाज़ार में उपलब्ध संक्षिप्त विवरण तथा दृष्टिवैबसाइट पर उपलब्ध सम्बंधित पाठ्य सामग्री एवं इंटरनेट की सहायता ली जा सकती है।
- इस परीक्षा में खेल कूद, कंप्यूटर, समसामयिक घटनाओं एवं राज्य विशेष से पूछे जाने वाले प्रश्नों की आवृत्ति ज्यादा होती है, अतः इनका नियमित रूप से गंभीर अध्ययन करना चाहिये।
- 'विज्ञान' एवं 'कंप्यूटर' आधारित प्रश्नों को हल करने के लिये 'सामान्य विज्ञान-लूसैट' की कतिब सहायक हो सकती है। साथ ही दृष्टि प्रकाशन द्वारा प्रकाशित मानक मासिक पत्रिका 'दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' के 'विज्ञान विशेष' का अध्ययन करना अभ्यर्थियों के लिये लाभदायक रहेगा।
- 'समसामयिक घटनाओं' एवं 'खेलकूद' के प्रश्नों की प्रकृति और संख्या को ध्यान में रखते हुए आप नियमित रूप से किसी दैनिक अखबार जैसे- द हिन्दू, दैनिक जागरण (राष्ट्रीय संस्करण) इत्यादि के साथ-साथ दृष्टिवैबसाइट पर उपलब्ध करेंट अफेयर्स के बनिदुओं का अध्ययन कर सकते हैं। इसके

अलावा इस खंड की तैयारी के लिये मानक मासिक पत्रिका 'ट्रिब्यून ऑफ़ेयर्स टुडे' का अध्ययन करना लाभदायक सिद्ध होगा।

- राज्य विशेष से सम्बंधित प्रश्नों को हल करने में मध्य प्रदेश सरकार के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'मध्य प्रदेश राज्य विशेष' या बाजार में उपलब्ध किसी मानक राज्य स्तरीय पुस्तक का अध्ययन करना लाभदायक रहेगा।
- द्वितीय प्रश्नपत्र 'सामान्य अभिरुचि परीक्षण' (सीसैट) केवल क्वालफाइंग होता है। इसमें प्रश्नों की प्रकृतियाँ मैट्रिक स्तर की होती हैं। इसकी वसित्तुत जानकारी 'पाठ्यक्रम' शीर्षक में दी गई है।
- सामान्य मानसिक योग्यता से सम्बंधित प्रश्नों का अभ्यास पूर्व में पूछे गए प्रश्नों को विभिन्न खंडों में वर्गीकृत करके किया जा सकता है।
- एम.पी.पी.एस.सी. की प्रारंभिक परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं होने के कारण किसी भी प्रश्न को अनुत्तरित न छोड़ें और अंत में शेष बचे हुए प्रश्नों को अनुमान के आधार पर हल करने का प्रयास करें।
- प्रारम्भिक परीक्षा तथिसे सामान्यतः 15-20 दिनि पूर्व प्रैक्टिस पेपर्स एवं वगित वर्षों में प्रारम्भिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को निर्धारित समय सीमा (सामान्यतः दो घंटे) के अंदर हल करने का प्रयास करना लाभदायक होता है। इन प्रश्नों को हल करने से जहाँ विषय की समझ विकसित होती है, वहीं इन परीक्षाओं में दोहराव (रपीट) वाले प्रश्नों को हल करना आसान हो जाता है।

मुख्य परीक्षा की रणनीति:

- एम.पी.पी.एस.सी. की मुख्य परीक्षा की प्रकृति विरणात्मक/वशिलेषणात्मक होने के कारण इसकी तैयारी की रणनीति प्रारंभिक परीक्षा से भिन्न होती है।
- प्रारंभिक परीक्षा की प्रकृति जहाँ क्वालफाइंग होती है, वहीं मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों को अंतिम मेधा सूची में जोड़ा जाता है। अतः परीक्षा का यह चरण अत्यंत महत्त्वपूर्ण एवं काफी हद तक निर्णायक होता है।
- सामान्य अध्ययन के प्रथम प्रश्नपत्र में 'इतिहास एवं संस्कृति', 'भूगोल', भारत - कृषि एवं जल संसाधन, मध्यप्रदेश का भूगोल 'आपदा एवं आपदा प्रबंधन' से सम्बंधित टॉपिक्स सम्मिलित हैं, जिनका अभ्यर्थियों को मानक पुस्तकों के साथ अध्ययन करना एवं मुख्य परीक्षा के प्रश्नों की प्रकृति के अनुरूप संक्षिप्त बनिदुवार नोट्स बनाना लाभदायक रहता है।
- इतिहास विषय के अंतर्गत इस परीक्षा में विश्व के इतिहास को नए पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है।
- 'आपदा एवं आपदा प्रबंधन' विषय पर 'ट्रिब्यून ऑफ़ेयर्स टुडे' के आपदा प्रबंधन विशेषांक की सामग्री परीक्षोपयोगी है।
- सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्नपत्र के खंड (अ) में 'संवधान, शासन की राजनैतिक एवं प्रशासनिक संरचना', भारतीय राजनीतिक विचारक, प्रशासन एवं प्रबंधन' तथा मध्यप्रदेश का प्रशासन सम्मिलित हैं।
- इस प्रश्नपत्र के पाठ्यक्रम को मानक पुस्तकों तथा इंटरनेट की सहायता से तैयार किया जा सकता है। जैसे- भारतीय राजव्यवस्था एवं प्रशासन तथा मध्यप्रदेश के प्रशासन पर मानक पुस्तकों का अध्ययन किया जा सकता है। अन्य पाठ्यक्रम के लिये इण्डिया इयर बुक (भारत) तथा इंटरनेट की सहायता ली जा सकती है।
- द्वितीय प्रश्नपत्र के खंड (ब) में समाजशास्त्र, भारतीय समाज में विविधता और चुनौतियाँ, औद्योगीकरण, वैश्वीकरण, सामाजिक विकास और जनसंख्या, मानव संसाधन विकास और सामाजिक कल्याण की योजनाएँ जैसे टॉपिक्स शामिल हैं। इसे मानक पुस्तकों की सहायता से तैयार किया जा सकता है।
- सामान्य अध्ययन तृतीय प्रश्नपत्र में 'वैज्ञानिक एवं तकनीकी', 'सांख्यिकी', 'कंप्यूटर', 'ऊर्जा', 'पर्यावरण एवं धारणीय विकास' एवं आयुष्य व योग शामिल हैं।
- इस पाठ्यक्रम की मानक अध्ययन सामग्री 'ट्रिब्यून ऑफ़ेयर्स टुडे' के 'डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम' (DLP) से प्राप्त की जा सकती है, जो इस प्रश्नपत्र एवं अन्य प्रश्नपत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम की वसित्तुत जानकारी के अंतर्गत 'पाठ्यक्रम' शीर्षक में दी गई है।
- 'तरक एवं आँकड़ों की व्याख्या' के लिये अंकगणित के अवधारणात्मक पहलुओं के साथ-साथ सांख्यिकी से सम्बंधित अवधारणाएँ एवं प्रश्नों का अभ्यास अत्यंत आवश्यक है।
- सामान्य अध्ययन का चतुर्थ प्रश्नपत्र दर्शनशास्त्र, मनोवैज्ञान एवं लोकप्रशासन से संबंधित है। इसकी वसित्तुत जानकारी 'पाठ्यक्रम' शीर्षक में दी गई है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2024 में इसके पाठ्यक्रम में कुछ परिवर्तन करते हुए खंड (ब) में उद्यमिता, व्यावसायिक संगठन एवं प्रबंधन, समग्र व्यक्तित्व विकास जैसे नए विषय जोड़े गए हैं, इन विषयों की तैयारी आप बाजार में उपलब्ध इन विषयों पर केन्द्रित मानक पुस्तकों की सहायता से कर सकते हैं।
- साथ ही सभी प्रश्नपत्रों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर-लेखन अभ्यास, परीक्षा में प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण में सहायक रहेगा।
- पंचम प्रश्नपत्र 'सामान्य हृदि एवं व्याकरण' से संबंधित है। इस प्रश्नपत्र का उद्देश्य अभ्यर्थी की भाषागत कौशल की जाँच करना है। इसके पाठ्यक्रम की वसित्तुत जानकारी 'वैज्ञानिक एवं संक्षिप्त विवरण' के अंतर्गत 'पाठ्यक्रम' शीर्षक में दी गई है।
- इस प्रश्नपत्र का स्तर स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों के समकक्ष होगा। इसके लिये हृदि की स्तरीय पुस्तक जैसे- वासुदेवनंदन, हरदेव बाहरी द्वारा लिखित पुस्तकों का गहराई से अध्ययन एवं उपरोक्त विषयों पर निरंतर लेखन कार्य करना लाभदायक रहेगा।
- षष्ठम प्रश्नपत्र 'हिन्दी नबिंध एवं प्रारूप लेखन' का होगा।

⇒ नबिंध लेखन की रणनीति के लिये इस [Link](#) पर क्लिक करें

- प्रथम नबिंध (लगभग 1000 शब्दों में) के लिये 50 अंक, द्वितीय नबिंध (लगभग 500 शब्दों में) के लिये 20 अंक एवं प्रारूप लेखन व प्रतविदन (लगभग 250 शब्दों में) के लिये 15-15 अंक नरिधारति कयि गए हैं
- नबिंध को रोचक बनाने के लिये श्लोक, कवति, उदधरण, महापुरुषों के कथन इत्यादिका प्रयोग कयि जा सकता है। नबिंध की तैयारी के लिये दृष्टि प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'नबिंध-दृष्टि' का अध्ययन करना लाभदयक रहेगा।
- उपरोक्त से स्पष्ट है कि मुख्य परीक्षा के समस्त पाठ्यक्रम का मध्य प्रदेश राज्य के सन्दर्भ में अध्ययन कयि जाना लाभदयक रहेगा।
- परीक्षा के इस चरण में सफलता प्राप्त करने के लिये सामान्यतः 60-65% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। हालाँकि पाठ्यक्रम में बदलाव के कारण यह प्रतशित कुछ कम भी हो सकता है।
- परीक्षा के सभी वषियों में कम से कम शब्दों में की गई संगठति, सूक्ष्म और सशक्त अभवियक्त को श्रेय मलैगा।
- वदिति है कि वर्णनात्मक प्रकृतवाले प्रश्नपत्रों के उत्तर को उत्तर-पुस्तिका में लखिना होता है, अतः ऐसे प्रश्नों के उत्तर लखिते समय लेखन-शैली एवं तारतम्यता के साथ-साथ समय प्रबंधन पर वशिष ध्यान देना चाहिये।
- लेखन शैली एवं तारतम्यता का विकास नरितर अभ्यास से आता है, जसिके लिये वषिय की व्यापक समझ अनविर्य है।

⇒ मुख्य परीक्षा में अचछी लेखन शैली के विकास संबंधी रणनीतिके लिये इस [Link](#) पर क्लिक करें

साक्षात्कार की रणनीति:

- मुख्य परीक्षा में चयनति अभ्यर्थियों (सामान्यतः वजिज्प्रा में वर्णति कुल रक्तियों की संख्या का 3 गुना) को सामान्यतः एक माह पश्चात आयोग के समक्ष साक्षात्कार के लिये उपस्थति होना होता है।
- साक्षात्कार कसि भी परीक्षा का अंतमि एवं महत्त्वपूर्ण चरण होता है।
- अंकों की दृष्टि से कम लेकनि अंतमि चयन एवं पद नरिधारण में इसका वशिष योगदान होता है।
- साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थियों के व्यक्तत्व का परीक्षण कयि जाता है, जसिमें आयोग के सदस्यों द्वारा आयोग में नरिधारति स्थान पर मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं जसिका उत्तर अभ्यर्थी को मौखिक रूप से देना होता है।
- वर्ष 2024 में एम.पी.पी.एस.सी. की इस परीक्षा में साक्षात्कार के लिये कुल 185 अंक नरिधारति कयि गए (पूर्व में यह 175 अंकों का होता था)
- आपका अंतमि चयन मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त कयि गए अंकों के योग के आधार पर तैयार कयि गए मेधा सूची के आधार पर होता है।
- साक्षात्कार में अचछे अंक प्राप्त करने के लिये 'साक्षात्कार की तैयारी' (interview preparation) शीर्षक का अध्ययन करें।

⇒ साक्षात्कार में अचछे अंक प्राप्त करने संबंधी रणनीतिके लिये इस [Link](#) पर क्लिक करें